HISAR METAL INDUSTRIES LIMITED

Regd. Off & Works: Near Industrial Development Colony, Hisar-125005 (HRY) Phone: 01662-220067,220367,220738 Fax 01662-220265 Email :info@hisarmetal.com, Web www.hisarmetal.com CIN No: L74899HR1990PLC030937

September 04, 2020

Corporate Relationship Department Bombay Stock Exchange Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai - 400 001 Scrip Code: 590018 (Category: Permitted for Trade) Corporate Listing Department National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, 5th Floor Plot No. C-1, G Block Bandra Kurla Complex, Bandra East Mumbai – 400051 Scrip Code: <u>HISARMETAL</u>

SUB: - Advertisement – Completion of Dispatch of Notice of the 30th Annual General Meeting <u>& For Book Closure</u>

Dear Sir/Madam,

We enclose, in terms of Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the copy of newspaper advertisement confirming completion of dispatch of notice of the 30th Annual General Meeting to the eligible shareholders.

This is for your information and records.

Thanking You,

Yours faithfully, For **Hisar Metal Industries Limited**

Company Secretary & Compliance Officer

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

FINANCIAL EXPRESS

28

ROADWAYS INDIA LIMITED CIN: L63090DL1987PLC319212 Regd. Office: 11/5B, First Floor, Pusa Road,

New Delhi : 110005 Email: corporate@roadwaysIndia.com, website: www.roadwaysIndia.com Tel.: 011-47192065, Fax: 011-25815456

NOTICE

NOTICE Noticeis hereby given that the next Meeting of the Board of Directors of the Company has been scheduledto take place on Tuesday, September 15, 2020 at 3:30 P.M. to inter aliaconsider and approve the Unaudited Financial Results for the 1st Quarter ended June an 2020. 30, 2020.

This information is also available on the Company's website: www.roadwaysindia.com and on Stock Exchanges website: www.cseindia.com and www.msei.in . By order of Board of Directors

For Roadways India Limited Sd/

HimaniGusair Date: 02.09.2020 Place: New Delhi Company Secretary & Compliance Officer

PUBLIC NOTICE

This is to notify all concerned that Sh. Pawan Kumar has applied for taking Loan against property from Aadhar Housing Fin. Ltd. for RZ-S-121, area 50 Sq. Yards, out of Khasra No. 45, situated at village Bindapur, colony known as Uttam Nagar in Block -S, Palam Puri, New Delhi Earlier a sale deed of above property was executed by Ramesh Chand S/o Kishan Lal in favor of Sheela Jain W/o Rohtash Kumar vide Doc. No. 4022, book No. 1, Vol. No. 14540 on page on pages 140-145 dated 1303.2007 with S.R. II, Basai Darapur. Further Sheela Jain W/o Rohtash Kumar sold above property to Mrs. Suman W/o Pawan Kumar vide Doc. No. 2044, Book No. 1, Vol. No. 15651 pages 01-10, SR II, Janakpuri, The sale deed Doc. No. 4022, book No. 1, Vol. No. 14540 on page on pages 140-145 dated 1303.2007 with S.R. II, Basai Darapur has been lost, if any concern having any claim, objection, related to above transaction including sale deed Doc. No. 4022 and mortgage with AHFL He/ She may kindly contact me within 7 days failing which no claim will be entertained later. Amit Kumar Adv. : 114, Deep Plaza

Opp. Civil Court, Gurugram 122001

FORM NO. INC-25A ADVERTISEMENT TO BE PUBLISHED IN THE NEWSPAPER FOR CONVERSION OF PUBLIC COMPANY INTO A PRIVATE COMPANY

COMPANY INTO A PRIVATE COMPANY Before the Regional Director, Ministry of Corporate Affairs, Northern Region In the matter of the Companies Act, 2013, section 14 of Companies Act, 2013 and Rule 41 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 AND In the matter of Deltafe India Limited having its registered office at 17/42 Punjabi Bagh New Public 40095

registered offic Delhi 110026

...Applicant

Notice is hereby given to the general public that the Company intending to make an application to the Central Government under section 14 of the Companies Act, 2013 read with aforesaid the Companies Act, 2015 fead with allocation rules and is desirous of converting into a private limited company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 02^{ed} September, 2020 to enable the company to give effect for such conversion.

company to give effect for such conversion. Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change/status of the company may deliver or cause to be delivered or-send by registered post of his objections supported by an affidavit stating the nature of his interest and grounds of opposition to the concerned Regional Director, Northern Region, at the address B-2 Withon Off Eloce Deruvarian Bhawan GGO Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex New Delhi - 110003, within fourteen days from the date of publication of this notice a copy to the applicant company at its stered office at the address mentioned



Notice is hereald Credit Limite and 01.00 P.M. tera "OAVM") in (02, "the Act") a Disclosure Ewith No.14/2020, and 05, 2020, resons Circular No.has (collectively rvice in the Notice c In complianceate

Annual Repoing whose e-mail but The aforesail the www.oraclecrady www.bseindiand

Manner of reithe For shares)20

Agents of ti(or) beetairta@ncial · For shares ting (DP)

Manner of ca)Hrs Members will iting in the Notice Cany

will also be mand have not cast manner of cas the members hoister

members who 020 detail in the Nint a

be Date: 02/09/20urs Place: New Lard

b be

TY

NO

ice

HISAR METAL INDUSTRIES LIMITED

Registered Office: Near Industrial Development Colony Delhi Road, Hisar-125005 (Haryana) Email: vchugh@hisarmetal.com; Tel.: (01662) 220067, 220367, 220738 Fax: (01662) 220265 CIN: L74899HR1990PLC030937

NOTICE OF 30TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLSOURE AND E-VOTING

Notice is hereby given that the 30th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Tuesday, 29th September 2020 at 9:00 a.m. at the registered office of the Company at Near Industrial Development Colony, Delhi Road, Hisar (Haryana) to transact the Ordinary and Special Business as set out in the notice of the 30th AGM. The Company has completed the dispatch of the Notice of AGM and the Annual Report for 2019-20. Electronic copies have been sent to all the members whose email ID are registered with the Company/Depository Participants and physical copies have been sent to the members at their registered address whose email ids are not registered with the Company/ Depository Participants. This communication and the Notice along with the Annual Report for 2019-20 are available at the following websites www.hisarmetal.com and http://evoting.nsdl.com. The communication relating to remote e-voting, inter-alia, containing user ID and password have been dispatched to the members.

As per Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Company is pleased to provide the facility to its members to exercise their right to vote by electronic means from a place other than the venue of the meeting ('remote e-voting'). The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) as the authorised agency to provide remote e-voting facility. The details of the remote e-voting are as under:

- Date and time of commencement of remote e-voling: 26 September, 2020 (9:00 a.m.) 1.
- Date and time of end of remote e-voting: 28 September, 2020 (5:00 p.m.)
- 2. The remote e-voting shall not be allowed beyond 28 September, 2020 (5:00 p.m.)
- A person, whose name appears in the register of members/ beneficial owners as on the cut-off date i.e., 22 3. September, 2020 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the meeting. 4.
- A person, who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the meeting and holding shares as on the cut-off date, may obtain the user ID and password by following the detailed procedure as provided in the Notice of the meeting which is available on Company's website and NSDL's website. If the member is already registered with NSDL for e-voting then he can use his existing user ID and password for casting the vote through remote e-voting.
- A facility of voting through ballot paper shall also be made available at the AGM and members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to vote 6.
- The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may attend the meeting but
- shall not be entitled to cast their vote again. In case of any queries/ grievances relating to remote e-voting, the members/ beneficial owners may contact 8.
 - Ms Pallavi Mhatre, Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400013, Phone No. 022 2499 4545 or at Toll free no. 1800-222-990; e-mail- evoting@nsdl.co.in. Members may also write to the Company Secretary at vchugh@hisarmetal.com or Company's registered office.

Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of Companies Act, 2013, Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Regulations, 2015 the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 19, 2020 to Tuesday, September 29, 2020 (both days inclusive) for the purpose of AGM and for determining the eligibility of payment of dividend, as recommended by the Boord of purpose of AGM and for determining the eligibility of payment of dividend, as recommended by the Board of Directors, if declared in the said AGM, for the financial year ended on 31st March, 2020.

For Hisar Metal Industries Limited Sd/-

Company Secretary & Compliance Officer

(Vishesh Kumar Chugh)

Place: Hisar (Haryana) Date: September 03, 2020

Annual G NOTICE Shirau Broadcast LiMITED Members tansi Road, Mola Khan, Paharganj Delhi New 110055 3.00 p.m. www.sadhnabroadcast.com ONLY, to t100DL1994PLC059093 ONLY, to t100DL1994PLC059093

issued by ING 26TH ANNUAL GENERAL MEETING ISSUED by TNG 26TH ANNUAL GENERAL MEETING referred to 1 of the Company will be held through Video Conferencing 2020, the jons of the Companies Act, 2013 and the Rules made through elastions and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, / Registrar bri 08, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 Annual Rei SEBI (Collectively called 'relevant circulars'), to transact copies of thig the e-AGM. Members will be able to attend the e-AGM Annual Rei SEBI (Collectively called 'relevant circulars'), to transact copies of thig the e-AGM. Members will be able to attend the e-AGM Annual Rei SEBI (Collectively called 'relevant circulars'), to transact copies of thig the e-AGM. Members will be able to attend the e-AGM Annual Rei Jang through VC/ OAVM facility shall be reckoned for the impanies Act, 2013.

website of ars, the Notice of the AGM and the sland alone financial website of -20, along with Board's report, Auditor's report and other is also avain the Company' company's Registrar and Share Transfer at www.bsi.umited (herein referred as 'RTA'). The aforesaid documents Remote e: United and The Metropolitan Stock Exchange of India In complian

(Managememail addresses:

Issued by tide who have not registered/ updated their email addresser (Listing Ob Transfer Agent Skyline Financial Services Private Limited

SHARPLINE BROADCAST LIMITED (Formerly known as Archit Holdings & Credits limited) CIN: L22100DL1990PLC039464 Regd. Office : 37, Second Floor, Rani Jhansi Road, Motia Khan, Paharganj Délhi New 10055 E Mail ID: sharplinebroadcastlimited@gmail.com, Website : www.sharplinebroadcast.in Ph. No. : 91-11-235252627

INFORMATION REGARDING 30TH ANNUAL GENERAL MEETING

INFORMATION REGARDING 30TH ANNUAL GENERAL MEETING The 30th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) on Monday, the 28th September, 2020 at 04.00PM, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020 read with Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI (Collectively called "relevant circulars"), to transact the business set out in the Notice calling the e-AGM. Members will be able to attend the e-AGM through VC/ OAVM. Members participating through VC/ OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum u/s 103 of the Companies Act, 2013. In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM and the stand alone financial statements for the financial year 2019-20, along with Board's report, Auditor's report and other documents required to be attached theretor, will be sent to all the members of the Company whose email address are registered with the Company/ company's Registrar and Share Transfer Agent Skyline Financial Services Private Limited (herein referred as 'RTA'). The aforesaid documents will also be available on the Company's website at **www.sharplinebroadcast.in** and on the website of the Stock Exchange i.e., The Metropolitan Stock Exchange of India Limited. **Wanner of registering / updating email addresses:**

Manner of registering / updating email addresses:

Members holding shares in physical mode who have not registered/ updated their email addresses with the Company, are requested to registered/ update the same with the company's Registrar and Share Transfer Agent Skyline Financial Services Private Limited (herein referred as 'RTA') at compliances@skylinerta.com.

मौसम						
🗾 पूर्वानुमान: प्रदेश में बारिश						
💭 की संभावना।						
तापमान: 🔺 ३१.० डिग्री, 🔻 १७.० डिग्री						
सूर्योदयः ०५:५१ सूर्यास्तः ०६:४२						

जनसत्ता, 3 सितंबर, 2020 4



1613 हो गए हैं।

मुख्य । आज्य नेगी ने अधिकारी सोनम नेगी ने

बुधवार को किन्नौर

जिला में कोरोना

संक्रमण के 15 नए

मामले सामने आए हैं।

कहा कि 31 अगस्त को पूह

उपमंडल के विभिन्न क्षेत्रों से

VCIOW/M

Heiding

Denat

Helding

41 पर पहुंच गया है। प्रदेश में आज प्रदेश में अब तक कुल 4716 लोग ठीक रात आई रिपोर्ट में 89 नमूने नेगेटिव हुए हैं जबकि आज 40 लोगों ने कोरोना को मात दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब कुल सक्रिय मामले रिपोर्ट पाजीटिव आई है।

Shivalik Bimetal Controls Ltd.

Office : Plot No. 16-18, New Electronics Co Chambeghet, Diati. Solar-173213 (HP) Ph + 91-11-26027174, Fax: +91-011-26026716

CIN: L27101HP1984PLC005962

NOTICE

In view of the continuing COVID-19 Pandemic, the Ministry of Corporate Atfairs (MCA)

has vide its circular dated May 05, 2029 read with circulars tated April 08, 2020 & circula dated April 13, 2020 permitted the holding of Annual General Meeting (AGM) through

Adeo Conferencing or Other Audio-Visual Means (OAVM). In compliance with these

Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and SEB (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the upcoming AGM of the

Company will be held on Tuesday, the 29th day of September, 2920 at 11.00 AV through

As per aloresaid circulars, the Notice of AGM along with the Annual Report for FY 2019

2020 has to be sent only by electronic mode to those Members whose E-mail id are

already registered with the Company/ Depositaries. The Company is also providing

If your email ID is already registered with the Company (Depository, Notice of AGM along with Annual Report for FY 2019-2020 and legin details for a voting shall be sent to your

registered email addresses. In case you have not registered your email ID with the

Company/ Depositary, please follow Selow instructions to registering your email (D for obtaining Annual Report for FY 2019-2020 and login details for e-voting

Physical Send a request to Registrar and Transfer Agents of the Company, MAS

Services Limited at intrograssory.com providing Folio number, Name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back).

FAN (Self attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (Self attested scanned copy of Aacher Card) for registering the email addresses.

Please send your bank detail with original concelled cheque to our RTA (i.e., MAS Services Limited, T-34, 2rd Floor, Okhla industrial Area, Phase-II, New

Delhi-110020 along with letter mentioning lolio no. If not registered already.)

PLEASE UPDATE THE SAME ON OR BEFORE 2214D SEPTEMBER, 2020

Please contact your Depositary Participant (DP) and registering your email

Please also update your bank detail with your DP for divident payment by

PLEASE UPDATE THE BAME ON OR BEFORE 22HD SEPTEMBER, 2020

Sdi

Aarti Japsal

The Notice of AGM and Annual Report for FV 2019-2020 will also be available on

Company's website at www.shivalikbimetals.com and website of BSE Limited at

www.dseitidia.com. Members attending the meeting through VC/O/WM shall be counted

remote e-voting facility to all its Members similar to earlier practices.

www.stivalikbimetals.com, E-mail: investor@stivalikbimetals.com

जिन 8 नमूनों की रिपोर्ट पाजिटिव

पाए गए जबकि 16 नमूनों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है और 8 नमूनों की

आई है ये टाटा टांसमिशन टीडोंग परियोजना से सम्बधित हैं व इन सभी की आय 18 से 50 साल के बीच है। ये 33 सदस्य दल के साथ 22 अगस्त को पश्चिमी बंगाल के मालदा से किन्नौर के लिए निकले थे व 26 अगस्त को चार्टड बस से किन्नौर पहुंचे थे। इन सभी को संस्थागत संगरोध में रखा गया है व इनके 31 अगस्त को नमूने लिए गए थे।

स्कूलों की 9वीं से 12वीं कक्षाओं के पाठ्यक्रम में 30 फीसद की कटौती प्रश्नपत्रों में भी 30 फीसद अतिरिक्त विकल्प का प्रावधान शिमला, 2 सितंबर (जनसत्ता)।

> कोरोना की वजह से स्कूलों में कक्षाएं न लगने से कि प्रदेश के स्कूलों की 9वीं से 12वीं कक्षाओं के पाठ्यक्रम में 30 फीसद की कटौती और प्रश्न पत्रों में 30 फीसद अतिरिक्त विकल्प प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

> इसके अलावा छात्रों को और अधिक अध्यापन दिवस उपलब्ध करवाने के लिए स्कुलों में शीतकालीन अवकाश और दूसरे शनिवार के अवकाश के दिन भी शिक्षण गतिविधियां संचालित की जाएंगी। इन अध्यापन दिवस के दौरान भी छात्रों को हर घर पाठशाला और अन्य आनलाइन माध्यमों से शिक्षण सामग्री प्रदान की जाएगी। विद्यार्थियों को हर विषय का ज्ञान प्राप्त हो इसके लिए सभी विषयों के महत्वपूर्ण विषयों पढ़ाने को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि छात्र निधार्रित पाठयक्रम को पूरा कर सकें।

> शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर को पाठ्यक्रम में कटौती को लागू करने के लिए गठित समिति सदस्यों से कई महत्वपूर्ण सझाव मिले हैं। विशेषज्ञों का मत है विद्यार्थियों को हर विषय का विस्तृत ज्ञान प्रदान किया जाए ताकि वे भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अपनी तैयारी कर सकें।

शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने बुधवार को यहां हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से मौजूदा शैक्षणिक सत्र के पाठ्यक्रम में 30 फीसद कटौती के लिए गठित समिति की रिपोर्ट पर विभिन्न विशेषज्ञों एवं हितधारकों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि स्कूलों में अध्यापन दिवस बढ़ाए जाएंगे ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो।

उन्होंने कहा कि छात्रों को परीक्षाओं की तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिले इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शीतकालीन और ग्रीष्मकाली अवकाश वाले स्कूलों की परीक्षाएं एक साथ मार्च महीने के अंत में आयोजित की जाएंगी। विभिन्न विषयों की प्रयोगिक परीक्षाएं लिखित परीक्षाओं के बाद अप्रैल महीने में आयोजित करवाईं जाएंगी।

शिक्षा विभाग सचिव राजीव शर्मा ने कहा कि पाठयक्रम में कटौती करने को लेकर शिक्षा मंत्री ने निजी व सरकारी स्कुलों के शिक्षकों व अन्य विशेषज्ञों समेत साढ़े तीन सौ हितधारकों से आज अलग से विचार विमर्श किया व इस कटौती को लेकर फैसला लिया गया। हालांकि समिति इस बावत पहले ही सिफारिश कर चुकी थी।

महिला ने फंदा लगाकर खुदकुशी की

धर्मशाला, 2 सितंबर (जनसत्ता)।

चंबा जिले के सलूणी उपमंडल की भजोत्रा पंचायत के सगोटी गांव की एक महिला नीचणू देवी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। यह महिला ग्वालू पंचायत के सचिव टेक सिंह की पत्नी थी और दो बच्चों के साथ पंचायत कार्यालय के रिहायशी कमरे में रह रही थी। जानकारी के अनुसार बच्चों को घुमाने टेक बाहर बाहर निकल गया था उसी दौरान पीछे से पत्नी ने दुपट्टे को पंखे की कुंडी के साथ फंदा लगाकर जान दे दी। किहार थाने की तेलका पुलिस चौकी ने मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

खुद पर आरोप वाले ऑडियो चलाने पर सत्र जज ने हाईकोर्ट भेजा मामला शिमला, 2 सितंबर (जनसत्ता)। दौरान सामने आया। राजधानी के सत्र जज वन अरिवंद मल्होत्रा ने खुद के खिलाफ इल्जामों वाले आडियो को ओपन कोर्ट में चलाने व बाद में इन इल्जामों को माफी के साथ वापस लेने को अदालत की अथॉरिटी को कम करने, मामले की न्यायिक प्रकिया में दखल और न्याय के प्रशासन में रुकावट डालने के काम को आपराधिक अवमानना का मामला

करार देते हुए मामले को हाईकोर्ट के लिए बतौर रेफरेंस भेज दिया है। सत्र जज ने 26 अगस्त को एक मामले की सुनवाई के दौरान ओपन कोर्ट में घटें इस पूरे वाकये का विवरण अपने आदेश में देते हुए इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। यह वाकया

राज्य बनाम शिव राम चौधरी व अन्य के मामले की सनवाई के इस मामले में जज अरिवंद मल्होत्रा ने अपने आदेश में जिक्र

करते हुए लिखा है कि आरोपी शिव राम चौधरी की ओर से पेश हुए वकील अजय कोछड़ ने कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से किसी ने उन तक पहुंच बनाने की कोशिश की है। ब्यौरा पूछने पर कोछड़ ने बतौर सबूत ऑडियो रिकार्डिंग

सुनाई। लेकिन इसमें आवाज किसी थी और इसे किसने रेकार्ड किया है, काम क्या है और कौन किससे मिला, इस सवाल के जवाब में कोछड़ ने कुछ नहीं कहा। कोछड़ ने इतना कहा कि उसके मुवक्किल को आशंका थी कि शिकायतकर्ता की ओर से उनसे कोई मिला है।

चीन को लेकर सरकार पूरी तरह सजगः जय राम

बैठक में अधिकारियों को दो

त्तव्या **बनीसा होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड** (कंपनी) जिसका पंजीकृत कार्यालय एससीओ 1136–37 दूसरा फ्लोर, सेक्टर–22बी, चंडीगढ़ 160022 . आवेदव

BCC FUBA INDIA LIMITED

CIN: L51385HP1985PLC012209

Regd. Office : 4 K.M., Swarghat Road,

Tel: 9218423157 , Website: www.bcclubs.com

PUBLIC NOTICE

(For the attention of Equity shareholders of BCC Fuba India Limited)

latice is hereby given that pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and the

Ministry of Corporate Affairs (MCA) circular dated 05.05.2020 read with other circulars

dated 08.04 2020 and 17.04 2020 and considering the current stuation of pandemic, the Company is intending to conduct its 34"Annual General Meeting on Wednesday, the 30" September, 2020 at 10.00 A.M. through video conferencing (VC) in accordance with the

for F.Y 2019-20 shall be sent only by electronic mode to those shareholders whose email addresses have been registered with the CompanyDepostories/RTA. Hence, the

Company requests all the shareholders who have not yet registered their email addresses

The details w.r.t. remote e voting process and user ID and password for remote e voting at the platform shall be provided along with the notice through email. The members can attend

the Meeting through VC, and vote by following the instructions provided in the e-mail

The facility for joining the meeting shall be kept open at least 15 minutes before the time tot be closed till expiry of 15 minutes after such acheduled time.

The Notice of 34" AGM and Annual Report for FY 2019-20 will also be available on the

Company's website www.bccfuba.com and on the website of BSE Limited at www.beeindia.com. Members attending the meeting through VC shall be counted for the

in case of any queries as regards to the registration process of small address, the

For BCC Fuba India Limited

Company Secretary & Compliance Officer

Divesh Kumar Yadav

sugh remote e-valing or through the e-valing system during the meeting.

surpose of Quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

has not updated their email addresses with the Company/Depositories/RTA to registe

mbers are hereby informed that the Notice of 34" AGN along with the Annual Report

agart-174101, Dist. Solan (H.P.)

सूचना एतद्द्वारा सामान्य जनता को सूचित किया जाता

आईएनसी–28 [कंपनीज (निगमन) निवम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]

केंद्रीय सरकार के समझ क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय क्षेत्र, नई दिल्ली

कंपनीज अधिनियम 2013 कंपनीज अधिनियम

2013 की घारा 13 (4) और कंपनीज (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5)

के खांड (ए) के मामलें में

कहा, किसी भी घुसपैठ को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त

मंडी, 2 सितंबर (जनसत्ता)।

'चीन की हरकतों को लेकर

राज्य सरकार पूरी तरह से सजग है और यहां किसी प्रकार की घुसपैठ बर्दाश्त नहीं की जाएगी।' यह कहना है मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर का। बुधवार को मंडी जिले के दो दिवसीय प्रवास पर आए मुख्यमंत्री पत्रकारों से औपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चीन की घुसपैठ का जिक्र करना उचित नहीं होगा। केंद्र की एजंसियों ने चीनी मुल के एक व्यक्ति को पकड़ा है जिसके कुछ और लोगों के साथ तार जुड़े हैं और यह एजंसियां मामले की जांच कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार पुरी तरह से सजग है और यहां ऐसी कोई परिस्थिति पैदा नहीं होने दी जाएगी। इससे पहले उन्होंने कांगनी में निमार्णाधीन संस्कृति सदन के कार्य का जायजा लिया और बाद में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। समीक्षा

टूक शब्दों में कहा कि अब कोरोना का बहाना नहीं चलेगा और विकास कार्यों की गति में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस वक्त पूरा विश्व कोरोना के संकट से जूझ रहा है और हमें पुरी सावधानियां और एहतिआत बरतते हुए काम करना होगा। वहीं उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सड़कों की दशा को जल्दी सुधारने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि लोग उन्हें सड़कों की बदहाली के वीडियो बनाकर भेज रहे हैं। विभाग उनके पास है इसलिए लोगों की गालियां भी उन्हें ही मिल रही हैं। ऐसे में विभाग को चाहिए कि जल्दी से जल्दी सड़कों की दशा को सधारा जाए।

बाद प्रदेश में कुल मृतकों का आंकडा स्वास्थ्य आरडी धीमान के मुताबिक 113 नमूने लिए गए थे जिनमें से देर हिसार मेटल इंड्स्ट्रीज लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः नियर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉलोनी दिल्ली रोड, हिसार–125005 (हरियाणा) ई—मेलः vchugh@hisarmetal.com; फोनः (01662) 220067, 220367, 220738 फैक्सः (01662) 220265

सबसे अधिक 41 मामले कांगड़ा जिले से

सामने आए हैं। उसके बाद सोलन

पर 36 मामले सामने आए। 🍂

से 23, किन्नौर से 15, 🎮

से 7, बिलासपुर से 3 🔛

और कुल्लू एवं मंडी से 2-

2 मामले सामने आए हैं।

इसके अलावा हमीरपुर

अतिरिक्त मुख्य सचिव

स 23, 1999 र र शिमला से 13, ऊना से 10 चंबा से 9, सिरमौर

दूसरे नंबर पर है। आज यहां

सीआईएनः L74899HR1990PLC030937 30वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर और ई—मतदान की सूचना

हिमाचल

ऊना में संक्रमण से

महिला की मौत

प्रदेश में संक्रमितों की संख्या दिनों

दिन बढती जा रही है। बधवार को भी

कोरोना संक्रमण के 161 मामले सामने

आए। प्रदेश में कुल संक्रमितों का

आंकड़ा 6400 पार जा पहुंचा है। वहीं

प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ऊना की

एक महिला की मौत भी हुई है। इसके

शिमला, 2 सितंबर (जनसता)।

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 30वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मंगलवार, 29 सितंबर, 2020, को सुबह 8:00 बजे, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, नियर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉलोनी, हिसार (हरियाणा) में 30वीं एजीएम की सूचना में निर्घारित कार्यवाही निस्तारण हेतु आयोजित की जाएगी।

कंपनी के एजीएम की सूचना और वर्ष 2019–20 की वार्षिक रिपोर्ट मेजने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन समी सदस्यों को मेंजी गई हैं जिनके ई−मेल आईडी कंपनी∕डिपॉजिटरी प्रतिमागियों के साथ पंजीकृत हैं और मौतिक प्रतियां उन सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर भेजी गई हैं जिनके ई–मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिमागियों के साथ पंजीकृत नहीं हैं। वार्षिक रिपोर्ट 2019–20 के साथ यह पत्राचार एवं सूचना निम्नलिखित वेबसाइटों www.hisarmetal.com और http://evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है । सदस्यों को रिमोट ई—मतदान से संबंधित जानकारी के साथ—साथ, यूजर आईडी एवं पासवर्ड मेज दिया गया है।

कंपनीज़ अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा कंपनीज़ (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, के अनुसार, संशोधित तथा सेबी (सुचियन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियमावली, 2015 के विनियम 44 कंपनी अपने सदस्यों को बैठक स्थल के अलावा अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (रिमोट) द्वारा मताधिकार की सुविधा प्रदान करने में खुशी अनुमव कर रही है। कंपनी द्वारा रिमोट ई—मतदान सुविधा प्रदान करने हेतु नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को अधिकृत एजेंसी नियुक्त किया गया है। रिमोट ई—मतदान का विवरण निम्नानुसार है:

- 1. रिमोट ई—मतदान प्रारंभ होने की तिथि एवं समयः 26 सितंबर, 2020 (प्रातः 9.00 बजे)
- रिमोट ई—मतदान समाप्त होने की तिथि एवं समयः 28 सितंबर, 2020 (सायं 5.00 बजे) 2
- रिमोट ई—मतदान की अनुमति 28 सितंबर, 2020 (सायं 5.00 बजे) के बाद नही दी जाएगी। 3.
- जिस व्यक्ति का नाम कट—ऑफ तिथि यानी 22 सितंबर, 2020 के अनुसार कंपनी के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों के तौर पर दर्ज है वह ही रिमोट ई—मतदान सुविधा प्राप्त करने के साथ—साथ बैठक में मतदान करने के अधिकारी है।
- वह व्यक्ति, जो बैठक की जानकारी मेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट—ऑफ तिथि के अनुसार वह शेयरधारक है वह बैठक सूचना के अनुसार विस्तृत प्रक्रिया का अनुसरण करके यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है, यह जानकारी कंपनी की वेबसाइट एवं एनएसडीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यदि सदस्य ई–वोटिंग के लिए पहले से एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो वह रिमोट ई—वोटिंग के माघ्यम से मतदान के लिए अपना मौजूदा यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।
- मतदान पत्र के माघ्यम से मतदान की सुविधा एजीएम स्थल पर भी उपलब्ध रहेगी तथा रिमोट ई—मतदान से अपना मत न देने वाले एजीएम में उपस्थित सदस्य एजीएम में अपना मतदान दे सकेंगे।
- रिमोट ई—मतदान से अपना मत दे चुके सदस्य बैठक में उपस्थित रह सकते है लेकिन बैठक में अपने मत का पुनः उपयोग नहीं कर सकेंगे |
- रिमोट ई—मतदान से संबंधित किसी पूछतांछ हेतु, सदस्य/लामार्थी स्वामी निम्नलिखित पत्ते पर संपर्क कर सकते है :
- सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड 'ए' विंग, चौथा तल, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013, फोन नं. 022 2499 4545 या टोल फ्री नं. 1800-222-990; ई-मेल evoting@nsdl.co.in | सदस्यगण कंपनी सचिव को ई—मेलः vchugh@hisarmetal.com पर या कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भी लिख सकते हैं।

कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 91, कंपनीज (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 और सेबी (सूचीकरण बाध्यताए एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसरण में एतद्वारा सूचित किया जाता है कि एजीएम और 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुशांसित किया गया लामांश, यदि कथित एजीएम में घोषित किया जाता है, के भुगतान के लिए योग्यता के निर्घारण हेतु कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर ट्रांसफर बुक शनिवार, 19 सितम्बर 2020 से मंगलवार, 29 सितम्बर, 2020 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगे।

कृते हिसार मेटल इंड्स्ट्रीज लिमिटेब हस्ता/-(विशेष कुमार चुघ) कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी स्थान : हिसार (हरियाणा) देनांकः 03 सितम्बर, 2020

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT No. : PW/EDP/CB/TA/NIT/2020-21/4787-91 Dated: 25.08.2020 For Shivalik Bimetal Controls Limited **Company Secretary**

for the purpose of Quorum under Section 108 of the Companies Act, 2013

addresses as per the process advised by DP.

NACH, if declare by company



पंजीवहर बनवॉलय प्सॉर २३, वेच ११, संसागुर रेटेंस, जिल संगदा, विमायन प्रदेश-१९४९ थ कार्विरट कार्यालय १४–२४/३ प्रयम तल, जोवला इंडॉड्रियल एपिय, केव-११, गई दिल्ली-११४८१ 출력과 secretaria@surajadostries.org (14805)은 www.sarajindastries.org, 야구는 01970.256414

28वीं वार्षिक आम बैठक की सदस्यों को सचना कोविरु-19 महामारी के जारी पहले हुए के महेनजर, कारमोरेट मामले के वंजालर ("एमसीए") में 8 अप्रेल 2020, 15 अप्रेल 2020 और 5 मई 2020 को परिपत्र संख्य 14/2020, 17/2020 और 20/2020 ('पमर्गीप परिप'त') में सहस सवर्ग्सों की एक जाम स्वल पर मीटिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्डेसिंग ('पीसी')/'अवन अंग्रिओ वीतुधल मीला ("ओएवीएम") सुविधा के मायम से एवीएम को रकने की सनमति दी। कथनी अधिनियम् 2615 ("अधिनियम") और उसी के अंतीगल बनाए गए निर्पमा के तहत सेवी (दृषी निर्धारण और प्रकटीकरण अववश्यकराण) विनियमन एलओर्बीजार विनिधमन"] 2016 ["रोगी 'शोबी परिपन्न' के परिषज व सेवी / एवओ / सीएफडी / सीएमडी१ / सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांक 12 गई, 2020 तथा एमसीए परिपजें द्वाना जाती प्रांतवानी के अनुसार निवेशक महल ने कंपनी की 28वीं एजीएम मंगलवार 29 नितम्बर 2020 दोपॉए 2:00 बंगे, एक आग रखल पर रहवरवों के भौतिक उपरिधति के बिना, वीसी/ओएवीएम के मध्यम बे काले हा प्रीसाम किया है रोबी और एमसीए परिपर्ज के प्रावधानों का जलन करने के लिए जा मार्च 2020 के समाप्त विता वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट तथा 28वीं एमीएन की सुपना, 28वीं एमीएन ने वीशी / ओएपीएन के महत्वन से शामिल होने के लिए ई--वीटिंग के साथ लॉम-इन विवरण चन समी संदरगों को इं--मेल द्वारा मंच्या जाएगा विभव्हें ई--मेल पते पहले र ही अध्यनी या चींतरहार तथा सेयर होतप्रत एतेंट था उनके संबंधिक डिसॉजटर्स हींभागियों ('डीपी') के साथ पंजीवरत है। सदस्य 28वीं एजीपम में केवल वीसी / ऑएवीएम सुविधा के माध्यम से ही जुड़ और शामिल हो सकरो है। 28वीं एजीएम में शामिल संगे के लिए निर्देश 28वीं इजीएम की सुख्या में दिए गए हैं। वीसी / ऑएवीएम सुविधा के माध्यम से जो सदस्य शामिल होंगे वे कपनी अधिनियम की धारा १८४ के अंतर्गत कोरम के लिए मान्य होंगे (26नी एजीएम की सचना तथ इमिक रिपीट कम्पनी को वेक्साइट www.surajindustries.org. स्टीव लसमेज की वेबसाइट (www.bseindia.com) तथा सेंट्रल विपरिवर मर्विजेज (इतिया) जिमिटेड ('सीडीएसएल') भी बेबसाइट (www.evotingindia.com) वर उपराचना संहरण जाएमें ।

Place: New Delhi Dated: 02/09/2020

"E-PROCUREMENT NOTICE **INVITATION FOR BIDS (IFB)**

The Executive Engineer, Electrical Division, HPPWD Palampur, Distt. Kangra, HP on behalf of Governor of Himachal Pradesh invites the item rate bids in Two Covers system in Electronic Tendering System from approved and eligible contractors/firms registered with HPPWD(E) fulfilling the qualifying criteria along with the documents for the works as detailed below in the table:

Sr. No.	Name of Work	Tender Value	Earnest Money	Time Limit	Tender Fee	Form No.
1	Providing Special Repair to Govt. Polytechnic college at Kangra, Distt. Kangra, HP (SH: Rewiring of Workshop Block along with power wiring therein).	2311082/-	42200/-	Six Months	500/-	8
2	Providing & installation of online UPS 40KVA for addi- tional power back-up along with wiring in operation the- atres 1 to 5, 2nd floor of 500 bedded hospital Dr.RPGMC Kangra at Tanda.		20000/-	One Month	350/	8
3	Providing & installation of online UPS 20KVA for addition- al power back-up along with wiring in Blood Bank, 1st Floor of 500 bedded hospital Dr. RPGMC Kangra at Tanda.	639705/-	12800/-	One Month	350/-	8

Availability of Bid Document and mode of submission: The bid document is available online on web site http://hptenders.gov.in and bid should be submitted online mode along with scanned copies of all doc uments pertaining to TQC/Eligibility Criteria, cost of bid document and bid earnest money in prescribed

Bidder would be required to register on website which is free of cost. For submission of bids, the bidder i required to have Digital Signature Certificate (IDSC) from one of the authorized certifying authorities (CA Aspiring bidders who have not obtained the user of ID and password for participating in e-tendering in HPPWD may obtain the same from the website http://hptenders.gov.in Digital signature is mandatory to participate in the e-tendering. Bidders already possessing the digital signature issued from authorized CAs can use the same in this tender.

Key/Critical Dates:

1	Publish Date/Time	09.09.2020	5.00 P.M.			
2	Document Download Start Date/Time	09.09.2020	5.00 P.M.			
3	Bid Submission Start Date/Time	09.09.2020	5.00 P.M.			
4	Bid Submission End Date/Time	24.09.2020	5.00 P.M.			
5	Physical Bid Documents Submission Date/Time	25.09.2020	Up to 11.00 A.M.			
6	Bid Opening Date/Time	25.09.2020	11.30 A.M.			

Tender Details: The tender document shall be uploaded online in two covers

a) Cover-1 shall contain scanned copy of all "Technical Documents/Eligibility information/TQC".
b) Cover-2 shall contain BOQ/Financial bid", where contractor will quote his offer for each item.

- Submission of original documents: The bidders are required to submit (a) original demand draf towards the cost of bid and (b) Original bid security/earnest money deposit (EMD), (c) Affidavit of correct ness of submitted documents and other technical documents in the office of Executive Engineer, Electrica Division, HPPWD Palampur, Distt. Kangra, HP as specified in key dates as Sr. No. 3, failing which the bids will be declared non-responsive.
- Bid Opening Details: The "Cover-1" of the bid shall be opened on 25.09.2020 at 11.30 AM in the office of Executive Engineer, Electrical Division, HPPWD Palampur, Distt. Kangra, HP by the authorized which will be intimated separately. In the interest of tenders they are advised to be present at the time of opening of tenders. If the office happens to be closed on the date of opening of the bids as specified the bids will be open on the next working days at the same time and venue.
- The bids for the work shall remain valid for a period not less than 120 days after the dead line date for submission.
- Corrigendum if any will be uploaded on the website http://hptenders.gov.in.
- Other details can be seen in the bidding documents. The officer inviting tenders shall not be held liable for any delay due to system failure beyond its control. Even though the system will attempt to notify bidders of any bids updates the employer shall not be liable for any information not received by the bidder. It is the bidder responsibility to verify the website for latest information related to tender.
- 10. The Executive Engineer reserve the right to extend or cancel the bids without declaring any reasons there

The bidders are advised to note other details and terms & conditions of tenders from the departmental web site www.hptenders.gov.in. Executive Engineer,

Electrical Division,

HPPWD Palampur- PIN-176061.

e-mail: ee-elep-hp@nic.in On behalf of Governor of Himachal Pradesh

धम्मनी एजीएम सुधना में दिए गए संकरनी पर मतवान करने के लिए अपने रखे सदस्यों को रिभोर्ट ई-चोटिंग (एजोएन में पूर्व) तथा ई-- चोटिंग (एजीएन के चीचन) की विकाल ब्रक्तिया एजीएम सुबंभा में दी मई हैं।

रायरथ जिलके पास भौतिक रूप से बोधर है और उन्होंने अपने ई-नेल पते बल्पनी वं यास पंजीवल नहीं करा रखें, वे एजीएम वर्षिक रिपोर्ट, वीसी/जोएवेएम सुविध डारा एजीएम में शामिल होने के लिए ई-पोर्टिंग के साथ लोग-इन विवल्प डाय करने के लिए अपने हे-मेन पत्ते पत्नीकत करा थे। इसको लिए आपना निवेधन कपनी की ईमेल secretarial@surajindustries.org पर मेले। ई- केल पते को पंजीकरण कवाने के लिए अपना नाम, कोलियों संख्या, गंधर प्रमाणपत्र (आमे और पीछे) की स्वीन प्रति, पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि और आवर कार्ड की स्वप्रगाणित त्वील प्रतितिपि समर्थन में मेजें ।

जीमेंट रूप में शेशर रखने वाले सवरव जिनके ई-मेल पते पंजीकृत नहीं है, चनके स्तरी, तर्व न हावर रखने पाल प्रयास्त्र खालक कुन्ता की संवर्ष्यना है। है जगव अनुरोध किया जाता है कि वे एजीएम चालिक सिर्गेट, सुचना तथा हु--दिटन के साथ वीती / ऑएबीएन सुविधा के नाव्यम से एजीएम में शामिल होने के लिए लीग-इन विवरण की पालि के लिए जाने इं--मंज़ पते अपनी बीगी के अनुरावर, जैसी प्रक्रिया सयवी डीपी के सललानुसार, दर्ज करें। मंदिष्य में सूचना मेजर्ने के लिए पंजीकृत \$--मेल प्रते कर उपयोग किया जाएगा।

होई भी व्यत्रित ओ शेमरों को अधिव्रहण करता है और एजीएन की सुबना व हलेक्टोंनिक प्रेषण की लिग्रि के बाद कांग्रेंगे का मदस्य प्रमला है और कट-ऑप रिधि वानि मंगलवार 22 सितम्बर, 2020 वी बाद शेवनों को धालग करता है वे लीग-इन आईडी और प्रलब्ध प्राप्त करने के एजीएन लुकना में एक्लेखित प्रक्रिय को धालन करें अध्यम helpdesk.evoting@odsindia.com पर एक अनुवेध भेज समते हैं।

-मतदान के बारे में किसी में प्रश्न के मामले में, सदस्य भी वर्वता दलवी, प्रबंधक (देशीग्रंथएत), जेंद्रान विगोजिन्डी शस्त्रिकेक (इकिंग) जिमिटेक, ए लिंग, इस्त्री मजिल मेरावन वयुजनएक्स, मकरालाल मिल जम्पाउंडल, एनएन जोडी मार्ग, लोकर परेल (पुरी) मुंबई — 400013 या helpdesk evoting@cdslindia.com पर एक इंमेल मेजे य 022–22058642 / 43 पर जींत कर मा secretarial@surajindustries.org पर कंपनी के अनुपालन अधिकारी को ई–मेल तिथे। चपरीक्त जानकारी कंपनी के सभी सुबूरयों की जानकारी और लाम के लिए जारी की जा रही है और एमरीम प्रतिम और संबी प्रतिपन्न के जनुपालन में है।

बोर्ड के निरोधकों के आदेश हाश

स्तान : नई दिल्ली Rentine: 02.09.2020

कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को "केंद्र शासित प्रदेश वंडीगढ़" से "हरियाणा राज्य" में स्थानान्तरित करने के सक्षम बनाने हेतु कंपनीज अधिनियम, 2013 की घारा 13 के अन्तर्गत सोमवार, 31 अगस्त, 2020 को आयोजिल की असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुकूल, केंद्रीय सरकार के समझ कंपनी की संस्था बहि नियमावली में परिवर्तन करने की याचिका प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है। यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रमावित कावालय के अस्तावित परिवर्तन से अनावत होने की संभावना है तो वह निवेशक शिकायत फॉर्म फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या शायथ पत्र द्वारा समर्थित उसके हित की प्रकृति एवं विशो का आधार बताते हुए, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 (चौदह) दिनों के अन्दर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, नई दिल्ली के पते बी–2 विंग, 2 फ्लोर, प. नदयाल अत्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स

नई दिल्ली 11003 पर पंजीकृत ढाक द्वारा सूचित करें, और एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी के निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पर भेजी जानी चाहिएः पंजीकृत कार्यालय पताः एससीओ 1136–37

दसरा फलोर, सेक्टर-22बी, चंडीगढ 160022 कृते और आवेदक की ओर से अनीसा होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेब हस्ता/-बिनोद कुमार ठाकुर निदेशक तिथिः 01.09.2020 DIN: 00251601 स्थानः गुक्तग्राम

BCC Fuba

ravisions of aforesaid circulars.

the same by accessing the following link:

ttps://inkintime.co.iniemalingiemali_register.html

वहीं मंडी शहर को नगर निगम का दर्जा देने को लेकर सीएम ने कहा कि मानसून सत्र में इसपर चर्चा की जाएगी और उसके बाद ही आगामी निर्णय लिया जाएगा।

पांगी के सेचू नाले में बहकर लापता हुईं दो सगी बहनें धर्मशाला, २ सितंबर (जनसत्ता)।

चंबा जिले के कबायली इलाके पांगी में पशुओं को चराने गई दो सगी बहनें सेचू नाला में बह कर लापता हो गई। पुलिस और स्थानीय लोगों ने तलाशी अभियान जारी रखा हुआ है लेकिन दोनों बहनों के शवों का कुछ पता नहीं है। आशंका जताई जा रही है कि दोनों का शव बहकर कहीं चिनाब नदी में न चला गया हो। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 31 अगस्त शाम को पांगी घाटी की साहली पंचायत के उपप्रधान ने फोन के जरिए पुलिस को युवतियों के लापता होने के बावत सूचित किया। उन्होंने पुलिस को बताया कि पशु चराने के लिए गई हिलौर गांव के महेंद्र सिंह की दो बेटियां 19 साल की मीना और 16 बरस की काजल घर वापस नहीं लौटीं। पुलिस और गांव वालों ने रात को मिलकर तलाश अभियान चलाया मगर कुछ पता नहीं चल सका।

shareholders may send email to dehi@linkinime.com त्तूरव इण्डस्ट्रील लिपिटेव 80/--बानुमंदि तलचंडन (कंपनी सचिव)

Place: New Delhi Date: 02.09.2020



2613/HP

Chandigarh